



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 24—जनवरी 30, 2009 (माघ 4, 1930)
No. 4] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 24—JANUARY 30, 2009 (MAGHA 4, 1930)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	73	भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	43	भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	65	भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	219
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं ...	89	भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस	*
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*	भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*	भाग III—खण्ड-4—विधिक अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	267
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	23
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*	भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्णक	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*		

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	73	and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories).....	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	43	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.....	65	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence.....	89	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	219
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations.....	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs.....	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi languages of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners.....	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills.....	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies.....	267
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories).....	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	23
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi.....	*

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]
[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 7 जनवरी 2009

सं. 5/17/2007-चमड़ा--चमड़ा क्षेत्र अपने भारी समग्र उत्पादन, निर्यात आय और रोजगार संभाव्यता की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चमड़ा क्षेत्र में 2.5 मिलियन लोग नियोजित हैं जिनमें से अधिकांश समाज के कमजोर वर्गों से तथा लगभग 30 प्रतिशत महिलाएं हैं। इस क्षेत्र का ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तथा सामाजिक समानता पर कार्य सृजन के लिए बहुत सशक्त प्रभाव/संबंध है। इस क्षेत्र में लघु और मध्यम उपक्रमों का बाहुल्य है।

2. कच्चे माल का आधार बढ़ाने; क्षमता में वृद्धि करने; पर्यावरण संबंधी चिंताओं का पता लगाने; मानव संसाधन विकास; निवेश को आकर्षित करने तथा भारतीय चमड़े के वैश्विक विपणन के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने 11वीं पंचवर्षीय योजना में भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम (आईएलडीपी) के अन्तर्गत विभिन्न उप स्कीमों को क्रियान्वित करने के लिए 937.52 करोड़ रुपये को परिचय्य को अनुमोदित किया है, जिसके घटक निम्न प्रकार हैं:--

क्र.सं.	घटक	रुपये करोड़ में
1.	चमड़ा क्षेत्र का एकीकृत विकास (आईएलडीपी)	253.43
2.	चमड़ा टैनिंग परिसर, नैल्लौर	29.00
3.	फुसतगंज में एफडीडीआई (एनआईएफटी) शाखा की स्थापना	7.17
4.	फुटवियर परिसर	3.00
5.	जीनसाजी विकास	10.00
6.	कारीगरों को सहायता	40.00
7.	मानव संसाधन विकास	60.00
8.	एफडीडीआई की सुविधाओं का उन्नयन तथा ऐसे अन्य संस्थानों एवं केंद्रों की स्थापना	300.07
9.	चमड़ा क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण हेतु डांचागत सुविधाओं का उन्नयन/स्थापना	200.00
10.	मिशन मोड	10.00
11.	मध्य प्रदेश में प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना	24.85
योग		937.52

3. आईएलडीपी के अन्तर्गत उप स्कीमों को प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए एक संचालन समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है। संचालित समिति के विचारार्थ विषय निम्न प्रकार होंगे:

- भारतीय चमड़े का एकीकृत विकास (आईडीएलएस) उप स्कीम के तहत प्रभावी मूल्यांकन सुनिश्चित करना, प्रक्रियाओं का निर्धारण, आधुनिकीकरण कार्यक्रम के लिए अपेक्षित मानक संयंत्र तथा मशीनरी के लिए मानक मूल्यों का निर्णय करना, सरकार से वित्तीय सहायता की स्वीकृति प्राप्त करना, तथा सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता का औद्योगिक इकाइयों को वितरण एवं मानीटर करने के लिए अनुवर्ती कार्रवाई करना।
- भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम की उप-स्कीमों के तहत 15 करोड़ रुपये से अधिक के प्रस्तावों का अनुमोदन करना।
- भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालन समिति द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं के कार्यान्वयन को मानीटर करना।

4. संचालन समिति की संरचना निम्न प्रकार होगी :--

- संयुक्त सचिव (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग) चेयरमैन
- निदेशक/उप सचिव (वित्त शाखा) औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग सदस्य
- वाणिज्य विभाग का नामित अधिकारी सदस्य
- सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम मंत्रालय का नामित अधिकारी सदस्य
- निदेशक, केन्द्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान सदस्य
- कार्यकारी निदेशक, चमड़ा निर्यात परिषद सदस्य
- प्रबंध निदेशक, फुटवियर डिजाइन तथा विकास संस्थान सदस्य
- सिडबी का नामित अधिकारी सदस्य
- चेयरमैन, चमड़ा निर्यात परिषद विशेष आमंत्रित
- उद्योग के प्रतिनिधि (यों) (जब चमड़ा क्षेत्र से संबंधित नीतिगत मामलों पर संचालन समिति की बैठक में विचार-विमर्श किया जायेगा तब ऐसी बैठकों के दौरान सुझावों के लिए आमंत्रित किये जानेवाले) विशेष आमंत्रित

(xi) निदेशक (चमड़ा), औद्योगिक नीति और संवर्धन

विभाग

संयोजक

(xii) चेयरमैन द्वारा सहयोजित अन्य आमंत्रित अधिकारी

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली-110115, दिनांक 12 दिसम्बर 2008

संकल्प

5. समिति अपनी प्रक्रियाएं तैयार करेगी और यदि आवश्यक हो, तो उप-समिति को नियुक्ति कर सकती है। समय-समय पर आवश्यकतानुसार इसकी बैठकें होंगी।

आदेश

आदेश किया जाता है कि संकल्प की एक-एक प्रति अंतर्मन्त्रालयी समिति के चेयरमैन, सदस्य, विशेष आमंत्रितों तथा संयोजक को प्रेषित की जाए।

आदेश किया जाता है कि संकल्प को आम सूचनार्थ भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

गोपाल कृष्ण

संयुक्त सचिव

वस्त्र मंत्रालय

विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय

नई दिल्ली-110066, दिनांक 29 दिसम्बर 2008

संकल्प

सं. के-12012/5/16/2008-पीएण्डआर/1795--पुनर्गठित अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड की अवधि को संकल्प सं. के-12012/5/16/2006-पी एण्ड आर, दिनांक 6 अक्टूबर, 2008 द्वारा अगले 2 वर्षों के लिए अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, बढ़ाया गया था। भारत सरकार ने अब श्री संजय गुप्ता, ए-2, शास्त्री नगर, मेरठ-250005, उत्तर प्रदेश को अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड के गैर सरकारी सदस्य के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया है जबकि संकल्प दिनांक 6 अक्टूबर, 2008, संकल्प दिनांक 7 अक्टूबर, 2008, 22 अक्टूबर 2008, 24 अक्टूबर, 2008, 29 अक्टूबर, 2008, 6 नवम्बर, 2008, 12 नवम्बर, 2008 एवं 26 नवम्बर, 2008 तथा 18 दिसम्बर, 2008 के द्वारा वर्धित समयावधि में मौजूदा अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड के सभी सरकारी एवं गैर-सरकारी सदस्य यथावत बने रहेंगे।

अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड के गैर सरकारी सदस्य के रूप में श्री संजय गुप्ता को शामिल करते हुए पुनर्गठित अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड में अध्यक्ष, सदस्य सचिव सहित 24 सरकारी सदस्यों तथा 73 गैर सरकारी सदस्यों को शामिल करते हुए बोर्ड की वर्तमान संख्या 98 सदस्य हो जाएगी।

तथापि, दिनांक 8 सितम्बर, 2006 के संकल्प में दर्ज अन्य सभी निबंधन एवं शर्तें वही रहेंगी तथा उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी संबंधितों को प्रेषित की जाए तथा इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

संजय अग्रवाल

विकास आयुक्त (हस्तशिल्प)

सं. 2-24/93-पॉलिसी नॉर्म्स-I--शिक्षा के क्षेत्र में केन्द्र और राज्य सरकारों को सलाह देने के लिए उच्चतम सलाहकार संस्था, केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (केब) की स्थापना सर्वप्रथम 1920 में की गई थी तथा मितव्ययिता के उपाय के रूप में 1923 में इसे भंग कर दिया गया। 1935 में इसे पुनर्जीवित किया गया तथा 1994 तक यह अस्तित्व में रहा। इस तथ्य के बावजूद कि विगत में केब की सलाह पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए तथा शैक्षिक एवं सांस्कृतिक विकास से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत विचार-विमर्श एवं जांच के लिए इसने एक मंच प्रदान किया, इसके कार्यकाल जो 5 जुलाई, 2007 को पूर्ण हो चुका है की समाप्ति के बाद इसका पुनर्गठन अपेक्षित है। देश में हो रहे महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक और सामाजिक-सांस्कृतिक विकास के मद्देनजर तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा को ध्यान में रखते हुए भी वर्तमान समय में केब को विशेषरूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। इसलिए यह महत्वपूर्ण बात है कि केन्द्र एवं राज्य सरकारों, शिक्षाविदों तथा सभी विषय-क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों को आपसी बातचीत में बढ़ोतरी करनी चाहिए तथा शिक्षा संबंधी निर्णय लेने के लिए सहभागितापूर्ण प्रक्रिया विकसित करनी चाहिए जो हमारे शासन तंत्र के संघीय ढांचे का संवर्धन करता है।

2. तदनुसार भारत सरकार ने अनुबंध के मुताबिक केब को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया है।

3. केब के कार्य निम्नलिखित होंगे :

- (क) समय-समय पर शिक्षा की प्रगति की समीक्षा करना,
- (ख) केन्द्र एवं राज्य सरकारों तथा अन्य संबंधित एजेंसियों द्वारा लागू की गई शिक्षा नीति की मात्रा एवं ढंग का मूल्यांकन करना और इस मामले में उपयुक्त सलाह देना,
- (ग) शिक्षा नीति के अनुरूप शैक्षिक विकास के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, राज्य सरकारों एवं गैर सरकारी एजेंसियों के बीच समन्वय के संबंध में सलाह देना, और
- (घ) किसी भी शैक्षिक प्रश्न पर स्वतः या केन्द्र सरकार अथवा किसी राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा मांगे जाने पर सलाह देना।

4. इन कर्तव्यों के निर्वहन के लिए बोर्ड (i) किसी भी सरकारी संस्था, किसी अन्य संगठन या व्यक्ति से सूचना एवं टिप्पणी की मांग कर सकता है; (ii) आवश्यकतानुसार अपने सदस्यों और/या अन्यो को शामिल करते हुए समिति या समूह गठित कर सकता है, और (iii) सरकार या किसी अन्य एजेंसी के माध्यम से ऐसे किसी भी मुद्दे पर अध्ययन अनुसंधान या रिपोर्ट अधिष्ठापित कर सकता है जिस पर बोर्ड या इसकी समिति अथवा समूह द्वारा ध्यान दिया जाना हो।

5. (क) कार्यकाल : इस अधिसूचना की तारीख से केब का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।
- (ख) आकस्मिक रिक्तियाँ : (i) पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों के बीच सभी आकस्मिक रिक्तियों को उस प्राधिकारी या संस्था द्वारा भरा जाएगा जिसने उस सदस्य को मनोनीत किया होगा अथवा चुना होगा जिसका पद रिक्त होगा। (ii) आकस्मिक रिक्ति पर मनोनीत या चयनित व्यक्ति बोर्ड का उस शेष अवधि के लिए सदस्य होगा जिस अवधि के लिए वह व्यक्ति सदस्य रहता है, जिसके स्थान पर उसे चुना गया है।
- (ग) बैठक : बोर्ड की वर्ष में कम से कम एक बार बैठक होगी तथा बोर्ड की दो क्रमिक बैठकों में दो वर्ष से अधिक का अंतर नहीं होगा।
- (घ) कार्यसूची : (i) कार्यसूची, व्याख्यात्मक ज्ञापन और कार्यवाही/कार्यवृत्त का रिकार्ड मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग), भारत सरकार द्वारा तैयार एवं परिचालित किया जाएगा। (ii) कार्यसूची एवं व्याख्यात्मक ज्ञापन सामान्यतया सभी सदस्यों को बोर्ड की बैठक से कम से कम 10 दिन पहले परिचालित किए जाएंगे।
- (ङ) कोरम : बोर्ड की बैठक का कोरम इसकी कुल सदस्यता का 2/3 होगा।
- (च) कार्यविधि : जिन मामलों का ऊपर प्रावधान नहीं है उनके मामले में बोर्ड अपनी स्वयं की कार्यविधि अपनाएगा।
- (छ) सामान्य : सिर्फ प्रक्रियागत खामी या किसी भी श्रेणी के अंतर्गत पद रिक्ति के कारण बोर्ड की कोई भी कार्यवाही अवैध नहीं होगी।

अमित खरे
संयुक्त सचिव

अनुबंध

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की संरचना

1. अध्यक्ष

मानव संसाधन विकास मंत्री

2. उपाध्यक्ष

- (i) मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
(ii) मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

3. भारत सरकार के प्रतिनिधि

- (i) सूचना और प्रसारण मंत्री
(ii) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री
(iii) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री
(iv) श्रम मंत्री
(v) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री

- (vi) जनजातीय कार्य मंत्री
(vii) युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री
(viii) सदस्य (शिक्षा), योजना आयोग
(ix) महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री

4. राज्य सरकारों और संघ राज्य प्रशासनों के प्रतिनिधि

- (i) प्रत्येक राज्य सरकार में एक शिक्षा प्रभार मंत्री (मुख्यमंत्री द्वारा नामित)
(ii) प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में उप राज्यपाल अथवा शिक्षा के प्रभारी मंत्री

5. चयनित सदस्य

- (i) लोक सभा से चार संसद सदस्य
(ii) राज्य सभा से दो संसद सदस्य

6. पदेन सदस्य

- (i) सचिव, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(ii) अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
(iii) अध्यक्ष, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद
(iv) अध्यक्ष, भारतीय चिकित्सा परिषद
(v) अध्यक्ष, भारतीय केन्द्रीय चिकित्सा परिषद
(vi) महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
(vii) अध्यक्ष, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड
(viii) कुलपति, राष्ट्रीय शैक्षिक आयोगना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय
(ix) निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद
(x) अध्यक्ष, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
(xi) महासचिव, भारतीय विश्वविद्यालय संघ
(xii) अध्यक्ष, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद
(xiii) अध्यक्ष, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद
(xiv) अध्यक्ष, भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद
(xv) महानिदेशक, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन
(xvi) अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद
(xvii) अध्यक्ष, दूरस्थ शिक्षा परिषद

7. नामित सदस्य-विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधि

1. श्री जावेद अख्तर,
702, सागर सम्राट,
ग्रीन फील्ड, जुहू,
मुम्बई-400 049.
2. श्री यू. आर. अनंतमूर्ति, 498, सुरागी, एचआईजी हाउस,
आरएमवी, सैकिंड स्ट्रेज, VI-ए मेन,
बंगलौर-560094.
3. सुश्री महाश्वेता देवी,
टाइप डब्ल्यू 2सी 12/3,

- फेज़-II, गोल्फ ग्रीन, ✓
कोलकाता-700095.
4. श्री एस. वी. गिरि,
कुलपति, सत्य साई उच्चतर अध्ययन संस्थान,
प्रशान्ति निलायम,
अनंतपुर-515134.
5. प्रो. जे. एस. ग्रेवाल,
29, सैक्टर-11,
चंडीगढ़-160016.
6. श्री गोपाल गुरु,
90, न्यू ट्रांजिट होस्टल, फेज़-3,
जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय परिसर,
नई दिल्ली
7. सुश्री जोया हसन
139 उत्तराखण्ड,
जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय,
नई दिल्ली-110067.
8. श्री जे. जे. ईराजी,
बोम्बे हाऊस,
24, होमी मोदी स्ट्रीट,
फोर्ट, मुम्बई-400001.
9. सुश्री किरण शॉ मंजुमदार,
अध्यक्ष बायोक्लोन इंडिया लिमिटेड,
20 केएम होसुर रोड,
इलैक्ट्रॉनिक सिटी,
बंगलौर-560100.
10. प्रोफेसर मृणाल मिरी, ✓
सदस्य,
राष्ट्रीय सलाहकार परिषद,
ए-39, साउथ एकस्टेंशन पार्क-1,
नई दिल्ली-110049.
11. सुश्री शुभा मुद्गल,
39 बी, एमआईजी फ्लैट्स, मोतियाखान,
पहाड़गंज, नई दिल्ली.
12. डॉ. जयन्त नार्लिकर,
इन्टर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एण्ड एस्ट्रोफिजिक्स,
पोस्ट बैग नं. 4, गणेशशिण्ड, पुणे-411007.
13. श्री विनोद रैना,
अध्यक्ष, अरैना काउंसिल ऑफ फैलोय,
ई-1/193, अरैना कॉलोनी,
भोपाल-462016.
14. सुश्री तीस्ता सीतलबाइ,
संपादक, कम्यूनिलिज्म कमबैट,
सबरंग कम्यूनिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड,
- पोस्ट बैग संख्या 28253,
जुहू पोस्ट ऑफिस, जुहू,
मुम्बई-400049.
15. श्री किरण सेठ,
एसोसिएट प्रोफेसर,
उत्पादन एवं औद्योगिक इंजीनियरिंग,
आई. आई. टी., दिल्ली.
16. सुश्री शांता सिन्हा,
अध्यक्ष,
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग,
सचिव,
मार्फत एम. वैकटारंगैया फाउण्डेशन
201, नारायण अपार्टमेंट, मारेडपल्ली (वेस्ट)
सिकन्दराबाद-500026.
17. सुश्री कृष्णा सोबती,
505-बी पूर्वाशा,
आनंद लोक हाउसिंग सोसाइटी,
मयूर विहार, फेज़-1, नई दिल्ली-110091.
18. श्री हबीब तनवीर,
एन-203, लेक व्यू एन्क्लेव,
अंसल अपार्टमेंट,
शामला हिल्स,
भोपाल-462013.
19. डॉ. मिथु अलूर,
संस्थापक अध्यक्ष,
नेशनल रिसोर्स सेंटर फॉर इक्लूशन,
दि स्पास्टिक सोसायटी ऑफ इंडिया,
के.सी. मार्ग, बांद्रा रिवलेमेशन,
मुम्बई.
- प्रारंभिक स्कूल में शिक्षण के अनुभव सहित स्कूल शिक्षा
20. सुश्री ए. हेमावती,
टी. एन. साईस फोरम एंड टीचर,
सुब्रमन्या भरतियार गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सैकेन्डरी स्कूल,
पांडिचेरी-605001.
21. श्री टी. गंगाधरन,
शिक्षक,
केरल शास्त्र साहित्य परिषद,
तिरुवनंतपुरम,
केरल.
- अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं से संबंधित शिक्षाविद्
22. श्री के. के. अबूबकर,
अध्यक्ष,
मुस्लिम शैक्षिक सोसायटी (पंजीकृत),
एम.ई.सी. कल्चरल कॉम्प्लेक्स,
कोच्चीन-17.

संस्कृत, अरबी, रूसी, उर्दू और तमिल में विशेषज्ञ

नई दिल्ली, दिनांक 6 जनवरी 2009

संस्कृत	संस्कृत	संकल्प
23. प्रो. रामा रंजन मुखर्जी 125/1, संतोषपुर एवेन्यू, कोलकाता-700075, पश्चिम बंगाल.	संस्कृत	सं. एफ.6-11/2008-यू.3--भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान सोसायटी, शिमला के नियमों एवं विनियमों के नियम 3 के प्रावधान के अनुसार भारत सरकार एतद्वारा तत्काल प्रभाव से तीन वर्ष की अवधि के लिए भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान सोसायटी का निम्नलिखित के रूप में पुनर्गठन करती है:--
24. डॉ. अब्दुल माजिद काज़ी, अरबी विभाग, जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली-110025.	अरबी	3(क) संस्थागत सदस्य (पदेन)
25. प्रो. अभय मौर्या, कुलपति, अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, (टी.ई.एफ.एल.यू.), हैदराबाद.	रूसी	1. सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, नई दिल्ली; 2. सचिव, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली; 3. संयुक्त सचिव (उच्चतर शिक्षा), उच्चतर शिक्षा विभाग, नई दिल्ली; 4. अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली; 5. महानिदेशक, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली; 6. अध्यक्ष, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली; 7. अध्यक्ष, भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली; 8. अध्यक्ष, भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली; 9. अध्यक्ष, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नई दिल्ली; 10. अध्यक्ष, साहित्य अकादमी, नई दिल्ली; 11. अध्यक्ष, संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली; 12. अध्यक्ष, ललित कला अकादमी, नई दिल्ली; 13. अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली; 14. भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, नई दिल्ली का एक उपाध्यक्ष; 15. अध्यक्ष, भारतीय विश्वविद्यालय संघ, नई दिल्ली; 16. निदेशक, राष्ट्रीय पुस्तकालय 17. अभिलेखागार के महानिदेशक; और 18. प्रमुख सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार;
26. प्रो. गोपीचंद नारंग, अध्यक्ष, साहित्य अकादमी, डी-252, सर्वोदय एनक्लेव, नई दिल्ली-110017.	उर्दू	ये संस्थागत सदस्य आवश्यकता पड़ने पर अपने नामितों द्वारा बैठकों में प्रतिनिधित्व कर सकते हैं।
27. डॉ. सी. सुब्रमण्यन कुलपति, तमिल विश्वविद्यालय, तंजावुर-613005.	तमिल	3 (ख) नामित सदस्य
8. सदस्य सचिव सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार।		(i) केन्द्र सरकार द्वारा नामित भारतीय विश्वविद्यालयों के छः कुलपति
9. स्थाई तौर पर आमंत्रित		(1) प्रो. मुशीर-उल हसन, कुलपति, जामिया मिलिया इस्लामिया, जामिया नगर, नई दिल्ली-110025
(i) सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग		(2) प्रो. सईद ई. हसनैन, कुलपति, हैदराबाद विश्वविद्यालय, डाकघर-केन्द्रीय विश्वविद्यालय परिसर, हैदराबाद-400046.
(ii) सचिव, युवा कार्यक्रम और खेल विभाग		(3) प्रो. चन्द्र कृष्णामूर्ति, कुलपति, श्रीमती नथीबाई दमोदर ठाकरसे महिला विश्वविद्यालय, 1, नथीबाई ठाकरसे रोड, मुंबई-400020.
(iii) सचिव, संस्कृति विभाग		
(iv) सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग		
(v) सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय		
(vi) सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय		
(vii) सदस्य सचिव, योजना आयोग		
(viii) सचिव, श्रम विभाग		
(ix) सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय		
(x) सचिव, कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग/आई.सी.ए.आर.		
(xi) सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय		
10. मीडिया प्रतिनिधि :		
(i) श्रीमती नंदनी मेहता -आउटलुक		
(ii) श्री पी. साईनाथ -द हिन्दू		
(iii) श्रीमती शिखा त्रिवेदी -एनडी टीवी		

- (4) प्रो. सुरभि बनर्जी,
कुलपति, गौर बंगा विश्वविद्यालय,
रविन्द्र एवेन्यू, मालदा कॉलेज परिसर,
झाकघर एवं जिला मालदा-732101.
- (5) प्रो. नागनाथ कोट्यपल्ले,
कुलपति, डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर मराठवाड़ा,
विश्वविद्यालय, औरंगाबाद-431004.
- (6) प्रो. सी. डी. सिंह,
कुलपति, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय,
अमरकंटक, मध्य प्रदेश
- (ii) केन्द्र सरकार द्वारा नामित अध्ययन, संस्कृति और विज्ञान के क्षेत्र के शिक्षाविद और विख्यात व्यक्ति
1. प्रो. इरफान हबीब,
बदर बाग, सिविल लाईन,
अलीगढ़-202992
 2. प्रो. दामोदर आचार्य,
निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान,
खड़गपुर-721302
 3. प्रो. मोहन गोपाल,
निदेशक, न्यायिक अकादमी, भोपाल
 4. प्रो. आर. आर. देशपांडे,
निदेशक,
इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज,
बंगलौर
 5. प्रो. जयाती घोष,
प्रोफेसर अर्थशास्त्र,
जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय,
नई दिल्ली
 6. प्रो. योगेन्द्र यादव,
फैलो, सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसायटी,
नई दिल्ली
 7. डॉ. असगर अली इंजीनियर,
अध्यक्ष,
सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसायटी एंड सेक्यूलरिज्म,
602 एंड 603, सिल्वर स्टार, 6वां फ्लोर,
बेस्ट बस डिपो के पीछे,
सांताक्रुज़ (ई.), मुंबई-400055
 8. श्रीमती अंरुणा राय,
नं. 278, हौज़ खास अपार्टमेंट,
अरबिंदो मार्ग, हौज़ खास,
नई दिल्ली-110016
 9. श्री राम दयाल मुंडा,
मानव विज्ञानी, हतमा,
मोराबादी, रांची कॉलेज के पीछे,
रांची
 10. प्रो. अब्दुल बिस्मिल्ला,
हिन्दी विभाग, मानविकी एवं भाषा संकाय,
जामिया मिलिया इस्लामिया,
नई दिल्ली-110025

11. प्रो. (डॉ.) एन. आर. माधव मेनन,
देवी प्रिंसा श्री राम रोड,
पूजापुरा, तिरुवनंतपुरम-695012
 12. प्रो. बी. एन. गोस्वामी,
फाइन आर्ट्स विभाग,
पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़
 13. प्रो. के. पी. सिंह,
पूर्व सदस्य,
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
 14. प्रो. प्रभात पटनायक,
अर्थशास्त्री एवं उपाध्यक्ष,
केरल राज्य आयोजना बोर्ड,
तिरुवनंतपुरम
 15. प्रो. यू. आर. आनंतमूर्ति,
प्रो. अंग्रेजी एवं विख्यात लेखक,
498, छटा ए मेन, आर. एम. वी.,
दूसरा स्तर, बंगलौर-560094
 16. प्रो. शकील अहमद,
पूर्व कुलपति,
बिहार विश्वविद्यालय
 17. डॉ. आर. पंत,
निदेशक/कुलपति
नव नालंदा महाविहार,
(सम विश्वविद्यालय),
नालंदा-803111, बिहार
 18. श्रीमती रूप रेखा वर्मा,
पूर्व कुलपति, लखनऊ विश्वविद्यालय,
भारत-पाक पीपल्स फोरम के अध्यक्ष,
शांति एवं लोकतंत्र के लिए,
यूपी चैप्टर
 19. डॉ. धर्मवीर,
नोटिड दलित किरीटिक और पूर्व आईएसएस अधिकारी
 20. श्री ओमप्रकाश बालिमकी,
कवि एवं साक्षरता आलोचक,
सी-5/2 ऑरडिनेन्स फौवर्टी एस्टेट,
देहरादून-248008, उत्तराखंड
- 3 (ग) संस्थान के प्रतिनिधि
- (1) निदेशक, भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला
 - (2) विद्यमान सभी अध्यापक
 - (3) विद्यमान सभी विशिष्ट अतिथि

भारत सरकार, डॉ. भालचन्द्र मुनगेकर को आईआईएसएस सोसायटी,
शिमला के अध्यक्ष के रूप में भी नामित करती है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सामान्य सूचना हेतु भारत के
राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

उपमन्त्र बसु
निदेशक

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY &
PROMOTION)

New Delhi, the 7th January 2009

RESOLUTION

No. 5/17/2007-Leather—Leather Sector plays an important role in Indian economy, in view of its substantial overall output, export earnings and employment potential. The Leather Sector employs 2.5 million people with majority from weaker sections of the society and about 30% women. The sector has very strong impact/linkage to job creation in rural economy and on social equity. The sector is dominated by small and medium enterprises.

2. The Central Government has approved an outlay of Rs. 937.52 crores for the 11th Five Year Plan towards implementation of various sub-schemes under Indian Leather Development Programme (ILDLP) aiming at augmenting raw material base; enhance capacity; address environmental concerns; human resource development; attract investment and global marketing of Indian Leather. The details of the sub-schemes under ILDP approved by the Central Government are as under :—

	Rs. in Crores
1. Integrated Development of Leather Sector (IDLS)	253.43
2. Leather Tanning complex at Nellore	29.00
3. Establishment of branch of FDDI at Fursatganj	7.17
4. Footwear Complex	3.00
5. Saddley Development	10.00
6. Support to Artisan	40.00
7. Human Resource Development	60.00
8. Up-gradation of facilities of FDDI and establishment of other such Institute and Centres	300.07
9. Upgradation/Installation of Infrastructure for Environment protection in Leather Sector	200.00
10. Mission Mode	10.00
11. Establishment of Training Centre in Madhya Pradesh	24.85
Total	937.52

3. In order to ensure effective implementation of the sub-schemes under ILDP, it has been decided to constitute a Steering Committee. The Terms of Reference of the Steering Committee will be as under :—

- (i) Ensure effective implementation, lay down procedures, decide normative prices for standard plant and machineries required for the modernization programme, accord sanction of financial assistance from Government, and monitor and follow up disbursement of financial assistance from Government to the industrial

units under the sub-scheme Integrated Development of Leather Sector (IDLS);

- (ii) Approve proposals under the sub-schemes of Indian Leather Development Programme costing upto Rs. 15 crores; and
- (iii) Monitor the implementation of the projects sanctioned by the Steering Committee under Indian Leather Development Programme.

4. The composition of the Steering Committee will be as under :—

- | | |
|--|-----------------|
| (i) Joint Secretary (IPP) | Chairman |
| (ii) Director/Deputy Secretary (Finance Wing), Department of Industrial Policy and Promotion | Member |
| (iii) Nominee of Department of Commerce | Member |
| (iv) Nominee of Ministry of MSME | Member |
| (v) Director, Central Leather Research Institute | Member |
| (vi) Executive Director, Council for Leather Exports | Member |
| (vii) Managing Director, Footwear Design & Development Institute | Member |
| (viii) Nominee of SIDBI | Member |
| (ix) Chairman, Council for Leather Exports | Special Invitee |
| (x) Representative (s) of Industry (to be invited for suggestions during such meetings when policy matters relating to the Leather Sector would be discussed in the Steering Committee Meeting). | Special Invitee |
| (xi) Director (Leather), Department of Industrial Policy and Promotion | Convener |
| (xii) Other invitees as co-opted by the Chairman. | |

5. The Committee will devise its own procedures and may appoint Sub-Committee, as it may consider necessary. It will meet from time to time and as per requirement,

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to the Chairman, Member, Special Invitees and Convener of the Inter-Ministerial Committee.

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

GOPAL KRISHNA
Joint Secy.

MINISTRY OF TEXTILES
OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER
(HANDICRAFTS)

New Delhi-110066, the 29th December 2008

RESOLUTION

No. K-12012/5/16/2008-P&R/1195—The term of the reconstituted All India Handicrafts Board (AIHB) was extended for a period of two years, or till further orders, whichever is earlier, vide Resolution No. K-12012/5/16/2006-P&R dated 6th October, 2008. The Government of India has now decided to induct Shri Sanjay Gupta, A-2, Shastri Nagar, Meerut-250 005, Uttar Pradesh as Non Official Member of the AIHB, while retaining all officials and non official members of the existing AIHB extended term vide Resolution dated 6th October 2008, Resolutions dated 7th October 2008, 22nd October 2008, 24th October 2008, 29th October 2008, 6th November 2008, 12th November 2008, 26th November 2008 & 18th December 2008.

With the above inclusion of Shri Sanjay Gupta as Non Official Member of the AIHB, the present strength of the Board shall be 98 Members, comprising of Chairman, 24 Official members, including Member Secretary and 73 Non-Official members, in the reconstituted All India Handicrafts Board.

All other terms and conditions recorded in the Resolution dated 08th September 2006 will, however, remain same and unchanged.

ORDER

Ordered that a copy of this resolution be communicated to all concerned and that it be published in the Gazette of India.

SANJAY AGARWAL
Development Commissioner (Handicrafts)

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi-110015, the 12th December 2008

RESOLUTION

No. 2-24/93-Policy Norms-I—The Central Advisory Board of Education (CABE), the highest advisory body to advise the Central and State Governments in the field of education, was first established in 1920 and dissolved in 1923 as a measure of economy. It was revived in 1935 and had continued to be in existence till 1994. Since important decisions had been taken on the advice of CABE and it had provided a forum for widespread consultation and examination of issues relating to educational and cultural development, it requires to be reconstituted after the expiry of its tenure which had ended on 5th July, 2007. CABE has a particularly important role to play at the present juncture in view of the significant socio-economic and socio-cultural developments taking place in the country and for the review

of the National Policy on Education. It is a matter of importance therefore, that the Central and State Governments, and educationists and people representing all interests, should increase their interaction and evolve a participative process of decision making in education, which enhances the federal structure of our polity.

2. The Government of India has accordingly decided to reconstitute CABE as per the annexure.

3. The functions of CABE would be:

- (a) to review the progress of education from time to time;
- (b) to appraise the extent and manner in which the education policy has been implemented by the Central and State Governments, and other concerned agencies, and to give appropriate advice in the matter;
- (c) to advise regarding coordination between the Central and State Governments/UT Administrations, State Governments and non-governmental agencies for educational development in accordance with the education policy; and
- (d) to advise; suo-moto, or on a reference made to it by the Central Government or any State Government or a union Territory Administration on any educational question.

4. For the discharge of these functions, the Board may (i) call for information and comments from any Government institution, any other organisation or an individual; (ii) appoint committees or groups comprising members of CABE and/or others as may be necessary; and (iii) commission, through Government or any other agency, studies, research or reports on any specific issue requiring the attention of the Board or its committees or groups.

5. (a) TENURE : The tenure of CABE shall be three years, with effect from the date of this notification.

(b) CASUAL VACANCIES : (i) All casual vacancies among the members; other than ex-officio members shall be filled by the authority or body which nominated or elected the member whose place falls vacant, (ii) The person nominated or elected to a casual vacancy shall be a member of the Board for the residue of the term for which the member whose place he fills would have been a member.

(c) MEETING : The Board will meet at least once every year and there shall not be a gap of more than two years between two consecutive meetings of the Board.

(d) AGENDA : (i) The Agenda, the explanatory memorandum and the record of proceedings/minutes will be prepared and circulated by the Ministry of Human Resource Development (Department of Higher Education), Government of India (ii) The

Agenda and the explanatory memorandum will ordinarily be circulated to all the members at least 10 days before the date of the meeting of the Board.

- (e) QUORUM : The quorum of the meeting of the Board will be 2/3rd of the total membership of the Board.
- (f) PROCEDURE : The Board will adopt its own procedures in respect of matters not provided for above.
- (g) GENERAL : No proceedings of the Board shall be invalid merely on the ground of procedural defect or vacancy under any category of membership.

AMIT KHARE
Joint Secy.

ANNEXURE

Composition of the Central Advisory Board of Education

1. Chairman

Minister of Human Resource Development.

2. Vice-Chairpersons

- (i) Minister of State for Human Resource Development
- (ii) Minister of State for Human Resource Development

3. Representatives of the Government of India

- (i) Minister of Information and Broadcasting.
- (ii) Minister of Science and Technology.
- (iii) Minister of Health and Family Welfare.
- (iv) Minister of Labour.
- (v) Minister of Social Justice and Empowerment.
- (vi) Minister of Tribal Affairs.
- (vii) Minister of Youth Affairs and Sports.
- (viii) Member (Education), Planning Commission.
- (ix) Minister of State for Women & Child Development.

4. Representatives of State Governments and UT Administrations

- (i) One Minister In charge of Education each State Government (to be nominated by the Chief Minister)
- (ii) Lt. Governor or Minister In charge of Education in each UT Administration.

5. Elected Members

- (i) Four Members of Parliament from the Lok Sabha
- (ii) Two Members of Parliament from the Rajya Sabha

6. Ex-officio Members

- (i) Secretary, Department of School Education and Literacy, MHRD.
- (ii) Chairman, University Grants Commission.
- (iii) Chairman, All India Council for Technical Education.
- (iv) Chairman, Medical Council of India.
- (v) Chairman, Central Council of Indian Medicine.
- (vi) Director General, Indian Council of Agricultural Research.

- (vii) Chairman, Central Social Welfare Board.
- (viii) Vice Chancellor, National University of Educational Planning and Administration.
- (ix) Director, National Council for Educational, research and Training.
- (x) Chairman, Central Board of Secondary Education.
- (xi) Secretary-General, Association of Indian Universities.
- (xii) Chairman, Indian Council of Historical Research.
- (xiii) Chairman, Indian Council for Social Science Research.
- (xiv) Chairman, Indian Council for Philosophical Research.
- (xv) Director-General, National Literacy Mission.
- (xvi) Chairman, National Council for Teacher Education.
- (xvii) Chairman, Distance Education Council.

7. Nominated Members-representing different interests

1. Shri Javed Akhtar,
702 Sagar Samrat,
Green Field, Juhu,
Bombay-400049.
2. Shri U R Ananthamurthy,
498 Suragi, HIG House,
RMV IInd Stage, 6th A Main,
Bangalore-560 094.
3. Ms. Mahasweta Devi,
Type W 2 C 12/3,
Phase-II, Golf Green,
Kolkata-700095.
4. Shri S. V. Giri,
VC, S S Institute of Higher Learning,
Prashanti Nilayam,
Anantapur-515134.
5. Prof. J. S. Grewal,
29, Sector-11, Chandigarh-160 016.
6. Shri Gopal Guru,
90, New Transit Hostel,
Phase-III, JNU Campus,
New Delhi.
7. Ms. Zoya Hasan,
139 Uttarakhand,
Jawaharlal Nehru University,
New Delhi-110067.
8. Shri J J Irani,
Bompay House,
24, Homi Modi Street,
Fort, Mumbai-400001.
9. Ms. Kiran Shaw Mazumdar,
Chairperson, BIOCON India Ltd.,
20th KM Hosur Road, Electronic City,
Bangalore-560100.
10. Prof. Mrinal Miri,
Member,
National Advisory Council,
A-39, South Extension Part I,
New Delhi-110 049

11. Ms. Shubha Mudgal,
39-B, MIG Flats, Motia Khan,
Pahargang, New Delhi
12. Dr. Jayant Narlikar,
Inter-University Centre for Astronomy
& Astrophysics,
Post Bag No. 4, Ganeshkhind,
Pune-411007.
13. Shri Vinod Raina,
Chair Arena Council of Fellows,
E1/193, ARERA Colony,
Bhopal-462 016.
14. Ms. Teesta Seetalvad,
Editor Communalism Combat,
Sabrang Communications Pvt. Ltd.,
P.B. No. 28253,
Juhu Post Office,
Juhu, Mumbai-400049.
15. Shri Kiran Seth,
Associate Professor,
Production & Industrial Engg.,
IIT, Delhi.
16. Ms. Shantha Sinha,
Chairperson,
National Commission for Protection
of Child Rights &
Secretary,
C/o. M. Venkatarangaiya
Foundation
201, Narayan Apartments,
Mareedpalli (West),
Secundrabad-500026.
17. Ms. Krishna Sobti,
505-B, Purvasha,
Anand Lok Housing Society,
Mayur Vihar, Phase-I,
New Delhi-110091.
18. Shri Habib Tanvir,
N-203, Lakeview Enclave,
Ansal Apartments
Shamala Hills
Bhopal-462 013.
19. Dr. Mithu Alur,
Founder Chairperson,
National Resource Centre for Inclusion,
The Spastic Society of India
K. C. Marg, Bandra Reclamation,
Mumbai.

School Education with experience in teaching at elementary school

20. Ms. A. Hemavathi,
T.N. Science Forum and Teacher,

Subramaniya Bharathiar Government Girls Higher
Secondary School,
Pondicherry-605 011.

21. Shri T. Gangadharan,
Teacher
Kerala Sasthra Sahithya Parishad,
Thiruvananthapuram,
Kerala.

Educationist dealing with minority educational institutions

22. Shri K.K. Aboobacker,
President,
Muslim Educational Society (Regd.),
M.E.C. Cultural Complex,
Cochin-17.

Experts in Sanskrit, arabic, russian, Urdu and Tamil

23. Prof. Rama Ranjan Mukherji : Sanskrit
125/1, Santoshpura Avenue,
Kolkata-700075,
West Bengal.
24. Dr. Abdul Majid Qazi, : Arabic
Department of Arabic,
Jamia Millia Islamia,
New Delhi-110025.
25. Prof. Abhai Maurya, : Russian
Vice-Chancellor,
The English and Foreign
Languages University (TEFLU)
Hyderabad.
26. Prof. Gopichand Narang, : Urdu
President,
Sahitya Akademi
D-252, Sarvodaya Enclave
New Delhi-110017.
27. Dr. C. Subramanian, : Tamil
Vice Chancellor,
Tamil University,
Tanjavur-613005.

8. Member Secretary

Secretary, Department of Higher Education, Ministry
of Human Resource Development, Government of
India.

9. Permanent Invitees

- (i) Secretary, Department of Women and Child
Development.
- (ii) Secretary, Department of Youth Affairs and Sports.
- (iii) Secretary, Department of Culture.
- (iv) Secretary, Department of Science and Technology.
- (v) Secretary, Ministry of Social Justice and
Empowerment.
- (vi) Secretary, Ministry of Tribal Affairs.
- (vii) Member Secretary, Planning Commission.
- (viii) Secretary, Department of Labour.

- (ix) Secretary, Ministry of Environment & Forests.
- (x) Secretary, Department of Agricultural Research & Education/ICAR.
- (xi) Secretary, Ministry of Information Technology.

10. Media Representatives

- (i) Smt. Nandini Mehta —Outlook
- (ii) Shri P. Sainath —The Hindu
- (iii) Smt. Shikha Trivedi —NDTV

New Delhi, the 6th January 2009

RESOLUTION

No. F-6-11/2008-U.3—In accordance with the provision of Rule 3 of the Rules and Regulations of the Indian Institute of Advanced Study (IIAS) Society, Shimla, the Government of India hereby re-constitutes the Society of the Indian Institute of Advanced Study (IIAS), Shimla, as follows, for a term of three years with immediate effect:—

3(a) Institutional Members (Ex-Officio)

1. Secretary, Department of Higher Education, New Delhi;
2. Secretary, Department of Expenditure, Ministry of Finance, New Delhi;
3. Joint Secretary (Higher Education), Department of Higher Education, New Delhi;
4. Chairman, University Grants Commission, New Delhi;
5. Director-General, Council of Scientific & Industrial Research, New Delhi;
6. Chairman, Indian Council of Social Science Research (ICSSR), New Delhi;
7. Chairman, Indian Council of Historical Research (ICHR), New Delhi;
8. Chairman, Indian Council of Philosophical Research (ICPR), New Delhi;
9. Chairman, National Book Trust, New Delhi;
10. Chairman, Sahitya Akademi, New Delhi;
11. Chairman, Sangeet Natak Akademi, New Delhi;
12. Chairman, Lalit Kala Akademi, New Delhi;
13. Chairman, Indian National Science Academy, New Delhi;
14. One of the Vice-Presidents of the Indian Council of Cultural Relations, New Delhi;
15. Chairman, Association of Indian Universities (AIU), New Delhi;
16. Director, National Library;
17. Director-General of Archives; and
18. Chief Secretary, Government of Himachal Pradesh.

These institutional members may, if necessary, be represented, at the meetings, by their nominees.

3(b) Nominated Members

- (i) Six Vice-Chancellors of Indian Universities nominated by the Central Government.

- (1) Prof. Mushir-ul Hasan,
Vice-Chancellor,
Jamia Milia Islamia, Jamia Nagar,
New Delhi-110025.
 - (2) Prof. Seyed E. Hasnain,
Vice-Chancellor,
University of Hyderabad,
P.O. Central University Campus,
Hyderabad-400 046.
 - (3) Prof. Chandra Krishnamurthy,
Vice-Chancellor,
Shreemati Nathibai Damodar Thackersey
Women's University,
1, Nathibai Thackersey Road,
Mumbai-400 020.
 - (4) Prof. Surabhi Banerjee,
Vice-Chancellor, University of Gour Banga,
Rabindra Avenue,
Malda College Campus,
P.O. & District Malda-732 101.
 - (5) Prof. Nagnath Kottapalle,
Vice-Chancellor,
Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University,
Aurangabad-431 044.
 - (6) Prof. C. D. Singh,
Vice-Chancellor,
Indira Gandhi National Tribal University,
Amarkantak, Madhya Pradesh.
- (ii) Educationists and those eminent in the field of learning, culture and science, nominated by the Central Government
1. Prof. Irfan Habib,
Badar Bagh,
Civil Lines, Aligarh-202 992.
 2. Prof. Damodar Acharya,
Director, IIT,
Kharagpur-721 302.
 3. Prof. Mohan Gopal,
Director, Judicial Academy, Bhopal.
 4. Prof. R. R. Deshpande,
Director,
Institute of Social and Economic Change,
Bangalore.
 5. Prof. Jayati Ghosh,
Professor of Economics,
JNU, New Delhi.
 6. Prof. Yogendra Yadav,
Fellow, Centre for Study of Developing Society,
New Delhi.
 7. Dr. Asghar Ali Engineer,
Chairman,
Centre for Study of Society and Secularism,

- 602 & 603, Silver Star, 6th floor, Behind BEST Depot, Santacruz (E), Mumbai-400 055.
8. Smt. Aruna Roy,
No. 278, Hauz Khas Apartment,
Aurobindo Marg, Hauz Khas,
New Delhi-110 016.
 9. Shri Ram Dayal Munda,
Anthropologist Hatma,
Morabadi, Behind Ranchi College, Ranchi.
 10. Prof. Abdul Bismillah,
Department of Hindi,
Faculty of Humanities and Languages,
Jamia Milia Islamia,
New Delhi-110025.
 11. Prof. (Dr.) N. R. Madhava Menon,
Devi Priya, Sai Ram Road,
Poojapura, Tiruvananthapuram-695012.
 12. Prof. B. N. Goswamy,
Department of Fine Arts,
Punjab University, Chandigarh.
 13. Prof. K. P. Singh,
Ex. Member, UGC.
 14. Prof. Prabhat Patnaik,
Economist and Vice Chairman,
Kerala State Planning Board,
Thiruvananthapuram.
 15. Prof. U. R. Ananthamurthy,
Prof. of English & Eminent Writer,
498, 6th A Main, R.M.V. 2nd Stage,
Bangalore-560 094.
 16. Prof. Shakeel Ahmad,
Former Vice Chancellor,
Bihar University.
 17. Dr. R. Panth,
Director/Vice-Chancellor,
Nava Nalanda Mahavihara,
(Deemed University),
Nalanda-803 111, Bihar.
 18. Smt. Roop Rekha Verma,
Former Vice-Chancellor of Lucknow University,
President of India-Pakistan People's Forum for
Peace and Democracy,
UP Chapter.
 19. Dr. Dharamvir,
Noted Dalit Critic and Former IAS Officer.
 20. Shri Omprakash Valmiki,
Poet and Literacy Critic,
C-5/2, Qridnance Factory Estate,
Dehradun-248 008, Uttarakhand.
- 3(c) Representatives of the Institute
- (1) Director, Indian Institute of Advanced Study,
Shimla
 - (2) All Fellows for the time being in position
 - (3) All distinguished Guests for the time being in
position
- The Government of India also nominates Dr. Bhalchandra Mungekar as the President of the IAS Society, Shimla.
- ORDER
- Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.
- UPAMANYU BASU
Director